

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- एंग्लो अमेरिकन ने कहा है कि उसने 31 मार्च को समाप्त तिमाही में 178,000 टन तांबे का उत्पादन किया, जो एक साल पहले की तुलना में 28% अधिक है।
- चीन की तांबा खनन कंपनी एमएमजी लिमिटेड ने पहली तिमाही में तांबे के उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज करते हुए 58,644 टन उत्पादन किया है, जबकि इसने पूरे साल के तांबे के उत्पादन 305,000 टन और 353,000 टन के बीच करने का लक्ष्य तय किया है।
- इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के नवीनतम मासिक आंकलन के अनुसार, 2023 के पहले तीन महीनों में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन साल-दर-साल 2.0% बढ़कर 16.9 मिलियन टन हो गया।
- आईएलजेडएसजी के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाईंड जिंक की मांग 2022 में 3.9% की गिरावट के बाद 2023 में 2.1% बढ़कर 13.80 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- आईएलजेडएसजी के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाईंड लेड की मांग इस साल 1.7%

बढ़कर 12.53 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि खदानों से लेड उत्पादन 2.8% बढ़कर 4.56 मिलियन टन होने का अनुमान है।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार मौजूदा रबी बाजार सीजन के दौरान गेहूँ की खरीद 195 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी।
- भारत लगातार पांचवें महीने अप्रैल 2023 में रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा, और माह-दर-माह 1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक 1.63 मिलियन बैरल प्रति दिन की खरीददारी की है।
- इस्पात मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इस्पात आयात-तैयार और अर्द्ध-तैयार-साल-दर-साल 45 प्रतिशत बढ़कर 7 मिलियन टन हो गया, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.04.23	27.04.23	बदलाव (%)
जीरा	40890.00	43045.00	5.27%
गुड़	1320.00	1367.50	3.60%
कॉटनसीडऑयलकेक	2728.00	2774.00	1.69%
सीसेमसीड	17700.00	17730.00	0.17%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.04.23	27.04.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	199.40	210.60	5.62%
मेंथा ऑयल	963.70	972.80	0.94%
सोना पेटल	5971.00	6005.00	0.57%
सोना	60275.00	60324.00	0.08%
सोना एम	59895.00	59933.00	0.06%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.04.23	27.04.23	बदलाव (%)
कैस्टरसीड	6266.00	6051.00	-3.43%
ग्वारगम	11278.00	10912.00	-3.25%
कैस्टरऑयल	1272.00	1233.00	-3.07%
मक्का	1931.00	1884.00	-2.43%
जौ	2229.50	2180.00	-2.22%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	21.04.23	27.04.23	बदलाव (%)
निकल	2104.20	2000.50	-4.93%
कच्चा तेल	6410.00	6155.00	-3.98%
एल्युमीनियम	212.95	206.35	-3.10%
तांबा	760.8	742.2	-2.44%
लेड	184.75	182.5	-1.22%

## साप्ताहिक समीक्षा

कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण सीआरबी इंडेक्स में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट देखी गई। आर्थिक प्रदर्शन से जुड़ी कमोडिटीज में गिरावट अधिक हुई। सर्राफा की कीमतों में बढ़ोतरी और सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी के कारण सोने की कीमतें बढ़त के साथ बंद हुई, जबकि बेस मेटल में गिरावट के कारण चांदी मामूली बढ़त के साथ एक दायरे में रही। फेडरल रिजर्व द्वारा जून तक अपने दर वृद्धि चक्र को रोक देने की आशंका से डॉलर के कमजोर होने के कारण सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। फेड ने अब तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वह आने वाले महीनों में अपने तेजतर्रार रुख को कम करने का इरादा रखता है। नेचुरल गैस वायदा की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह में छोटे कदमों के साथ बढ़त दर्ज की गई जबकि कच्चा तेल वायदा कीमतों में दूसरे सप्ताह गिरावट हुई। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों ने 75 डॉलर और 80 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया। कीमतों में भारी गिरावट के कारण पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों के संगठन (ओपेक+) द्वारा आश्चर्यजनक रूप से उत्पादन में कटौती के बाद हुई सारी बढ़त समाप्त हो गई। कीमतें अब एक महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं और ओपेक द्वारा लक्षित 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे हैं। धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंका, जिससे तेल की मांग कम हो सकती है, से कच्चे तेल की कीमतों पर सबसे अधिक दबाव पड़ा, क्योंकि कमजोर आर्थिक आंकड़ों और कॉर्पोरेट कमाई ने इस साल अमेरिकी मंदी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बेस मेटल में, तांबा और जिंक की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई, और एल्युमीनियम भी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि लेड मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन में असमान आर्थिक सुधार को लेकर चिंता का भी तांबे की कीमतों पर दबाव पड़ा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तांबा आयातक में कमजोर मैनुफैक्चरिंग गतिविधि के कारण कमोडिटीज के लिए मांग कम हो सकती है। इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के नवीनतम मासिक आंकलन के अनुसार, 2023 के पहले तीन महीनों में वैश्विक स्तर पर प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन साल-दर-साल 2.0% बढ़कर 16.9 मिलियन टन हो गया।

कृषि कमोडिटीज में, कॉटनऑयलसीड की कीमतों में तीसरे सप्ताह भी बढ़त दर्ज की गई और 2800 के ऊपर बंद हुई। अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग के कारण अरंडी की कीमतें 6000 रु तक नीचे आ गई। पिछले पांच महीनों में कैस्टर सीड की कीमतों में 13% की गिरावट हुई है। इसबगोल में उच्च स्तर से मुनाफावसूली देखी गई। सामान्य मॉनसून और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण ग्वार की कीमतों में पांचवें सप्ताह गिरावट हुई है। बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के कारण ज्यादातर मिलें थोक खरीद से परहेज कर रही हैं, इसलिए मांग को लेकर फंडामेंटल कमजोर दिख रहे हैं। तांबडुतोडु खरीददारी से जीरा की कीमतें 42700 के पार चली गई। फसल के नुकसान की वजह से उपज प्रभावित होने के कारण कीमतों में तेजी आई, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, विशेष रूप से चीन से छुट्टियों के मौसम से पहले मजबूत मांग के कारण भी कीमतों में मजबूती का समर्थन मिला। हल्दी की कीमतों में अधिक गिरावट हुई है। धनिया की कीमतें एक दायरे में रही। मेंथा ऑयल की कीमतों में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी हुई है। अप्रैल-मई के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे कीमतों की मजबूती को समर्थन मिलेगा।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	21.04.2023	27.04.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,214.55	2,170.40	-1.99%
चना	दिल्ली	4,971.05	4,994.50	0.47%
धनिया	कोटा	6,467.20	6,451.05	-0.25%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	885.95	874.25	-1.32%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,304.45	1,352.95	3.72%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,624.15	5,512.15	-1.99%
ग्वारगम	जोधपुर	11,383.10	11,046.95	-2.95%
जीरा	ऊझा	40,797.50	42,100.50	3.19%
सरसों	जयपुर	5,499.75	5,259.65	-4.37%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	1,015.00	972.50	-4.19%
सोयाबीन	इंदौर	5,528.25	5,428.70	-1.80%
हल्दी	निजामाबाद	6,794.65	6,691.30	-1.52%
गेहूं	दिल्ली	2,254.80	2,300.00	2.00%
कॉटन	कड़ी	30,106.15	29,448.80	-2.18%
कॉटनऑयलसीडकेक अकोला		2,783.10	2,798.10	0.54%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	21.04.2023	27.04.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2396.50	2319.00	-3.23%
तांबा	LME	नकद	8794.50	8586.50	-2.37%
लेड	LME	नकद	2161.00	2099.50	-2.85%
निकल	LME	नकद	24477.00	24099.00	-1.54%
जिंक	LME	नकद	2719.00	2621.00	-3.60%
सोना	COMEX	जून	1981.30	1999.00	0.89%
चांदी	COMEX	जुलाई	25.16	25.21	0.19%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	77.87	74.76	-3.99%
नेचुरल गैस	NYMEX	जून	2.23	2.36	5.46%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	21.04.2023	27.04.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	14.83	14.39	-2.97%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	53.40	51.10	-4.31%
कॉटन	ICE	जुलाई	78.41	78.63	0.28%
सीपीओ	BMD	जुलाई	3,705.00	3,435.00	-7.29%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	20.04.2023 क्वांटिटी	27.04.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	550	550	0
चना	मी.टन	4099	3960	-139
धनिया	मी.टन	4092	4563	471
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	13552	14690	1138
ग्वारगम	मी.टन	15522	15586	64
ग्वारसीड	मी.टन	23027	23112	85
जीरा	मी.टन	4615	5739	1124
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन	मी.टन	1933	1933	0
हल्दी	मी.टन	1005	966	-39

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	21.04.2023 क्वांटिटी	27.04.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1394	1306	-87
तांबा	मी.टन	961755	826128	-135627
सोना	किग्रा	325	325	0
सोना मिनी	किग्रा	7376	2888	-4488
सोना गिनी	किग्रा	143000	142500	-500
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	122350	133095	10745
चांदी एम	किग्रा	42003	42003	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 21.04.2023	स्टॉक की स्थिति 27.04.2023	अंतर
एल्युमीनियम	569600	570300	700.00
तांबा	53875	64550	10675.00
निकल	41076	40032	-1044.00
लेड	32100	32300	200.00
जिंक	53500	53325	-175.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	43045.00	14.03.23	तेजी	32000.00	41200.00	-	41000.00
NCDEX	हल्दी	मई	6670.00	06.04.23	तेजी	7035.00	6430.00	-	6400.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	5494.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5720.00	5750.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मई	<b>6051.00</b>	<b>26.04.23</b>	<b>मंदी</b>	<b>6120.00</b>	-	<b>6170.00</b>	<b>6200.00</b>
NCDEX	स्टील लांग	मई	47150.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	48850.00	49000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	2774.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2890.00	2900.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	972.80	14.03.23	मंदी	1015.00	-	995.00	1000.00
MCX	बुलडेक्स	मई	16338.00	13.03.23	तेजी	15500.00	16130.00	-	16100.00
MCX	चांदी	मई	75280.00	13.03.23	तेजी	64000.00	73200.00	-	73000.00
MCX	सोना	जून	59901.00	13.03.23	तेजी	57000.00	59100.00	-	59000.00
MCX	मेटलडेक्स	मई	16863.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	16000.00	17600.00	-
MCX	तांबा	मई	742.20	19.04.23	मंदी	775.00	-	767.00	770.00
MCX	लेड	मई	182.50	20.04.23	साइडवेज	185.00	180.00	190.00	-
MCX	जिंक	मई	236.35	19.04.23	मंदी	252.00	-	258.50	260.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	206.35	25.04.23	साइडवेज	210.00	-	215.50	216.00
MCX	कच्चा तेल	मई	6140.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	6450.00	6500.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	194.40	30.03.23	साइडवेज	177.00	175.00	210.00	-

\*27/04/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन युज को मार्गिंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### नेचुरल गैस ( मई ) एमसीएक्स



### नेचुरल गैस ( मई ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 199.30

निचला स्तर: 160.60

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (मई) कॉन्ट्रैक्ट 27 अप्रैल 2023 को 194.40 रूप बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 199.59 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 44.354 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

180.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 220.00 रूप के टारगेट के लिए 190.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कैस्टरसीड ( मई ) एनसीडीईएक्स



### कैस्टरसीड ( मई ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6710.00

निचला स्तर: 5981.00

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (मई) कॉन्ट्रैक्ट 27 अप्रैल 2023 को 6051.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6195.11 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 29.421 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

5800.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 6450.00 रूप के टारगेट के लिए 6000.00 रूप के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### सोना ( जून ) एमसीएक्स



### सोना ( जून ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 61371.00

निचला स्तर: 55172.00

एमसीएक्स में सोना (जून) कॉन्ट्रैक्ट 27 अप्रैल 2023 को 59901.00 रूप पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 60031.98 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.724 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

60700.00 रूप के स्टॉपलॉस के साथ 58800.00 रूप के टारगेट के लिए 60000.00 रूप के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

बाजार में भारी स्टॉक के कारण हल्दी की कीमतों में नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की उम्मीद है। निजामाबाद में आवक पूरे जोरों पर है और मराठवाड़ा में इसके बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन पिछले साल की तुलना में कुल आवक कम है, क्योंकि पिछले साल के 98 हजार टन की तुलना में अप्रैल-23 में अब तक लगभग 69.3 हजार टन की आवक हुई है। भारत के उत्तरी हिस्से में मांग कम हुई है, जिससे आपूर्ति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। बाजार में भारी स्टॉक है और स्टॉकिस्ट कीमतों में हर वृद्धि पर अपने स्टॉक को जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू बाजार में सुस्त खरीददारी के चलते आने वाले सप्ताह में कीमतों में अधिक गिरावट आ सकती है। लेकिन बेहतर निर्यात पूछताछ और कम उत्पादन अनुमान अत्यधिक गिरावट पर रोक लग सकती हैं। महाराष्ट्र में रकबे में गिरावट के कारण कुल उत्पादन में साल-दर-साल 7%-10% की गिरावट का अनुमान है। हल्दी(मई) वायदा की कीमतों को 6400 के पास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और निकट भविष्य में 7200 पर रेजिस्टेंस बना रह सकता है। मुख्य रूप से मौजूदा स्तरों पर नयी खरीददारी के कारण जीरा (मई) वायदा की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। नई फसल की आवक में सुधार हुआ है लेकिन कम उत्पादन के कारण अभी भी सामान्य से कम आवक दर्ज की गई है। चीन से अधिक निर्यात मांग और गुजरात में कम उत्पादन से कीमतों की तेजी को समर्थन मिलने की संभावना है। कम रकबे और उत्पादकता में कमी के कारण गुजरात में जीरा का उत्पादन साल-दर-साल 9% घटकर 200.78 हजार टन रहने का अनुमान है। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति बढ़ने से जीरे की मौसमी निर्यात मांग बढ़ने की उम्मीद है। तकनीकी रूप से कीमतों ने 42500 के तत्काल रेजिस्टेंस को पार कर लिया है और निकट अवधि में 45100 की ओर बढ़ने की उम्मीद है। जीरा की कीमतों में गिरावट पर खरीददारी की सलाह है जबकि कीमतों को 38500 के पास सपोर्ट मिल सकता है। धनिया वायदा (मई) की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ एक दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है क्योंकि उत्पादन में गिरावट की उम्मीद में बाजार में शॉर्ट कवरींग हो सकती है। हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण राजस्थान में फसल क्षति की रिपोर्ट से उपज को नुकसान की आशंका है। राजस्थान और गुजरात में धनिया के उत्पादन में तेजी से उछाल आया है, जिससे कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगेगी। वर्ष 2022-23 के दौरान गुजरात में धनिया का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 81% बढ़कर 376 हजार टन होने का अनुमान है। लेकिन बढ़ी हुई निर्यात पूछताछ से अत्यधिक गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। धनिया की कीमतों के 6150-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

औद्योगिक मांग में कमी के कारण कपास में नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कमजोर आर्थिक दृष्टिकोण और सुस्त निर्यात मांग से बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित होने की संभावना है। कपास निर्यात पिछले वर्ष के 43 लाख गांठ की तुलना में वर्ष 2022-23 में 25 लाख गांठ तक कम होने की संभावना है। लेकिन कम उत्पादन और कम स्टॉक अनुमानों के कारण गिरावट सीमित होने की संभावना है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2022-23 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 307 लाख गांठ की तुलना में 303 लाख गांठ होने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में अब तक कुल आवक में साल-दर-साल 40% से अधिक की कमी आई है। एमसीएक्स पर कॉटन (जून) की कीमतों के 60000-63000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1560-1640 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में घटती आपूर्ति के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (मई) वायदा की कीमतों में तेजी की संभावना है। कपास के उत्पादन में गिरावट से कपास के बीज के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना है। कॉटनसीडऑयलकेक खली की कीमतें 2650-2930 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

ग्वारसीड (मई) वायदा की कीमतें साइडवेज कारोबार कर सकती है क्योंकि कीमतें शॉर्ट कवरींग के मूड में हैं। लेकिन किसानों के पास भारी स्टॉक होने और ग्वारगम के लिए कमजोर निर्यात पूछताछ के कारण ग्वार में बढ़त सीमित रहने की संभावना है। आगामी सीजन के लिए बेहतर बुवाई की संभावनाओं पर ग्वार बाजार की नजर रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2023 में सामान्य मानसून वर्षों की भविष्यवाणी की है। ग्वारसीड की कीमतें निकट अवधि में 5200-5800 के दायरे में कारोबार कर सकती है जबकि ग्वारगम की कीमतों के 10500-13500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन संभावना के कारण मेंथा ऑयल वायदा (मई) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। सामान्य से अधिक तापमान के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में रकबे में कमी आई है जिससे कुल उत्पादन कम होने की आशंका है। लेकिन मेंथॉल के बढ़ते आयात और चीन की सीमित खरीददारी से बढ़त पर रोक लग सकती है। कीमतों को 945 के पास सपोर्ट रहने की संभावना है और 1035 पर रेजिस्टेंस बना रह सकता है।

आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा (मई) की कीमतों में नरमी के रूझान के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग से कीमतों पर दबाव रहेगा। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी के तेल का निर्यात अप्रैल 22-जनवरी 23 की अवधि के दौरान साल-दर-साल 14% घटकर 490 हजार टन रह गया है। कैस्टर सीड की कीमतों में पिछले पांच महीनों में 13% की गिरावट हुई है और 5800 के स्तर पर सपोर्ट बने रहने की संभावना है, जबकि 6500 रेजिस्टेंस रह सकता है।

### सर्पफा

सोने की कीमतों में दूसरी मासिक बढ़त दर्ज की गई क्योंकि आर्थिक चिंताएं और कमजोर डॉलर ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश वाली संपत्ति की ओर आकर्षित किया। अब बाजार की नजर अगले महीने फेडरल रिजर्व की बैठक पर केंद्रित है। दूसरी ओर, डॉलर इंडेक्स में मासिक गिरावट हुई है, जिससे सोना अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए अधिक आकर्षक बन गया। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी की बैठक 2-3 मई को होने वाली है, और और बाजार को दर में 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि की संभावना 85.4% है। हाल के दिनों में सोना सुरक्षित निवेश की मांग के कारण बढ़ रहा है और अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद तेजी से धीमा हो गया है और आगे बढ़ने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि आंकड़ों से पता चलता है कि प्रमुख यूएस-निर्मित पूंजीगत सामानों के लिए नए ऑर्डर मार्च में उम्मीद से अधिक कम हो गए, जबकि शिपमेंट में गिरावट आई। इस बीच अमेरिकी आर्थिक विकास पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक धीमा हो गया, और बैंकों को फेड की आपातकालीन उधारी हाल के सप्ताह में मामूली रूप से बढ़ी और बहुत उच्च स्तर पर बनी रही, यहां तक कि कई केंद्रीय बैंकों का तर्क है कि बैंकिंग क्षेत्र के नवीनतम तनाव कम हो रहे हैं। सोने चांदी का अनुपात 80 से नीचे है, जिसका अर्थ है कि सोने के मुकाबले चांदी का मूल्य कम है। ज्यादातर समय, सोने/चांदी का अनुपात 45 और 85 के दायरे में रहा है। सोने में कुछ गिरावट की उम्मीद है जिसे खरीददारी का अवसर माना जा सकता है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतों को 2000 डॉलर के पास मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और निचले स्तर पर यह 1980 डॉलर के पास सपोर्ट ले रहा है। चांदी की कीमतें 22.650-25.800 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। इस सप्ताह में सोने की कीमतों में उच्च स्तर से कुछ गिरावट देखी जा सकती है और कीमतें 58000-61000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतों को 71000 के पास सपोर्ट और 77000 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में दूसरी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निराशाजनक अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी को लेकर अनिश्चितता के कारण मांग का आउटलुक कमजोर हुआ। कच्चे तेल के दोनों बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स में 3.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है। लेकिन मिले-जुले आर्थिक संकेतों के बीच दो दिनों की भारी बिकवाली के बाद कच्चे तेल में मामूली बढ़त हुई। अमेरिकी आर्थिक विकास पहली तिमाही में अपेक्षा से अधिक धीमा हो गया, लेकिन 22 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में बेरोजगार दावे कम हो गए। निवेशक इस बात से भी चिंतित हैं कि मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर में संभावित वृद्धि आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में ऊर्जा की मांग को कम कर सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक सभी को अपनी आगामी बैठकों में दरें बढ़ाने की उम्मीद है। फेड की बैठक 2-3 मई को होने वाली है। दूसरी ओर रूसी उपप्रधान मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने गुरुवार को कहा कि चीन की ओर से उम्मीद से कम मांग के बावजूद ओपेक+ समूह को उत्पादन में अधिक कटौती की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि आवश्यक हो तो संगठन हमेशा नीति को समायोजित कर सकता है। ओपेक+ ने इस महीने संयुक्त रूप से उत्पादन में प्रति दिन लगभग 1.16 मिलियन बैरल की कटौती की घोषणा की, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गईं। इस सप्ताह कच्चे तेल में निचले स्तर से कुछ उछाल की उम्मीद है लेकिन मुख्य रूझान अभी भी मंदी का है और कीमतें 5800-6400 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें 1-1/2 सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी की ओर हल्की बढ़त दर्ज की, तापमान के सामान्य से नीचे रहने के पूर्वानुमान के बाद गैस में शॉर्ट कवरींग हुई। ईआईएफ भंडारण रिपोर्ट के अनुसार गैस भंडार में औसत 72-77 बीसीएफ की बढ़ोतरी हुई है, जो 5 साल के औसत 43 बीसीएफ से अधिक है। इस सप्ताह कीमतों में 220 तक कुछ उछाल जारी रह सकता है और 180 के पास सपोर्ट ले सकता है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं, लेकिन कीमतों में तेज गिरावट के बाद शॉर्ट कवरीज के कारण कुछ उछाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोविड और पिछले साल की कमजोरी से चीन की रिकवरी केवल औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों में धीरे-धीरे हो रही है। कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने मंदी को लेकर आशंका बढ़ा दी है जिससे धातुओं की मांग का अनुमान कम हो सकता है। लेकिन, भंडार के रिकॉर्ड कम होने, आपूर्ति की कमी और मध्यम अवधि में अपेक्षित मांग वृद्धि से कीमतों में निरंतर उतार-चढ़ाव की संभावना रहेगी। तांबे की कीमतें 730-760 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन की तांबा खनन कंपनी एमएमजी लिमिटेड ने पहली तिमाही में तांबे के उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज करते हुए 58,644 टन उत्पादन किया है। तांबे के उत्पाद बनाने वाली चीनी कंपनियों ने रॉयटर्स को बताया कि वे आमतौर पर अधिक मांग सीजन दूसरी तिमाही के लिए उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 और सुस्त निर्यात के बाद घरेलू खपत में उम्मीद से कम रिकवरी हुई है। संपत्ति, बिजली और ऑटोमोबाइल क्षेत्र, जहां चीन में लगभग दो-तिहाई तांबे की खपत होती है, निराशाजनक बिक्री से जूझ रहे हैं जो धातु की मांग को कम कर रहे हैं। जिंक की कीमतें 225-242 के दायरे में कारोबार कर सकती है। आईएलजेडएसजी ने कहा कि विश्व स्तर पर रिफाइंड जिंक मांग 2023 में आपूर्ति से अधिक हो जाएगी, वर्तमान में घाटा 45,000 टन रहने का अनुमान है। लेड की कीमतें 176-186 के दायरे में कारोबार कर सकती है। आईएलजेडएसजी के अनुसार विश्व स्तर पर रिफाइंड लेड की मांग 2023 में आपूर्ति से 20,000 टन अधिक हो जाएगी। एल्युमीनियम की कीमतें 195-210 के दायरे में कारोबार कर सकती है। अप्रैल से जून के लिए जापानी खरीदारों को एल्युमीनियम शिपमेंट के लिए प्रीमियम 125-130 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया गया था, जो पिछली तिमाही से 45-53% अधिक है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग वायदा (मई) की कीमतें 46500-49000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

## कपास.....सफेद सोना

मानव सभ्यता के इतिहास में कपास सबसे पुराना नेचुरल फाइबर है। आधुनिक समय में यह सबसे अधिक (लगभग 70 फीसदी) इस्तेमाल होने वाला नेचुरल फाइबर है क्योंकि सभी देशों और वर्गों के उपभोक्ता कपड़े और अनेक तरह के कामों में कपास का इस्तेमाल करते हैं। मानव जीवन में इसके बहुआयामी इस्तेमाल और महत्व के कारण ही इसे सफेद सोना कहा जाता है। इन दिनों कपास की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जिससे किसान और कारोबारी काफी लाभान्वित हुए हैं।

### कपास आपूर्ति अनुमान

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले सीजन 2022-23 के लिए कपास के उत्पादन के लिए मार्च महीने का अनुमान जारी किया है। सीएआई ने 2022-23 सीजन के लिए अपने कपास उत्पादन अनुमान को घटाकर 303 लाख गांठ (1 गांठ 170 किलोग्राम की) कर दिया है।

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास सीजन 2022-23 के अंत तक यानी 30 सितंबर 2023 तक कपास की आपूर्ति 349.89 लाख गांठ (1 गांठ 170 किलोग्राम की) होने का अनुमान है। कपास की कुल आपूर्ति में 1 अक्टूबर 2022 को कपास के मौसम की शुरुआत में 31.89 लाख गांठ का शुरुआती स्टॉक, उत्पादन अनुमान 303 लाख गांठ और इस दौरान 15 लाख गांठों के आयात का अनुमान शामिल है। सीएआई का आयात अनुमान पिछले अनुमान से 3 लाख गांठ अधिक है। सीएआई द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित आयात 14 लाख गांठ का अनुमान लगाया गया था।

अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान कपास की आपूर्ति कुल 229.02 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें 190.63 लाख गांठ की आवक, 6.50 लाख गांठ का आयात और सीएआई द्वारा शुरुआती स्टॉक 31.89 लाख गांठ होने का अनुमान है।

### कपास खपत का अनुमान


कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास सीजन 2022-23 के अंत तक घरेलू खपत 311 लाख गांठ होने का अनुमान है। सीएआई ने अपने गैर-कपड़ा मिलों की खपत का अनुमान 11 लाख गांठ बढ़ा दिया है। इस सीजन के लिए निर्यात 25.00 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है, जो पहले के अनुमान से 5 लाख गांठ कम है।

पिछले कपास सीजन 2021-22 में निर्यात का अनुमान 43 लाख गांठ था। कैरी-ओवर स्टॉक, जो पहले 15.89 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया गया था, अब 13.89 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान 149 लाख गांठों की कपास की खपत का अनुमान लगाया है, जबकि 31 मार्च 2023 तक 10.50 लाख गांठ के निर्यात का अनुमान लगाया गया है। मार्च 2023 के अंत में कपास स्टॉक 69.52 लाख गांठ का अनुमान है, जिसमें कपड़ा मिलों के पास 50.

52 लाख गांठ और सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य (एमएनसी, व्यापारियों और कताई मिलों आदि द्वारा बेचे गए लेकिन डिलीवरी नहीं किए गए कपास सहित) के पास शेष 19 लाख गांठ शामिल हैं।

आगामी 2023-24 फसल वर्ष के लिए वैश्विक स्तर पर आपूर्ति और मांग दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ कपास की कीमतों को लेकर अनिश्चितता है। मांग के मोर्चे पर अनिश्चितता है क्योंकि मध्यम अवधि में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है, जिससे कपास की खपत में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन निरंतर खर्च और कम परिधान आयात से भंडार में गिरावट और मांग में संभावित सुधार हो सकता है।



स्रोत: सीएआई



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीबीए स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।